

फॉर्म पंजीकरण

केंद्रीय विद्यालय नगरोटा में सत्र 2021-22 के लिए उपयोगी सामग्री जैसे स्टेशनरी, परीक्षा सामग्री, प्रिंटिंग सामग्री तथा विद्यालय पत्रिका, टीचर तथा विद्यार्थी डायरी, पुरस्कार, मैडल, ट्राफी, खेलकूद सामग्री, संगीत उपकरण, कंप्यूटर सामग्री / ए.एम.सी, शिक्षण सामग्री, पुस्तकालय हेतु पुस्तकें, फर्नीचर, टेंट, साउंड तथा विद्युत सामग्री, ए.सी, वाटर प्यूरीफायर, वाटर कूलर तथा ए.एम.सी, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पेंटिंग मटेरियल, लेबर, फोटोग्राफी, ड्राइंग तथा पेंटिंग, फ्लेक्स प्रिंटिंग, विद्यालय की सुरक्षा तथा संरक्षण, प्रयोगशाला सामग्री, प्लास्टिक कुर्सिया तथा स्टूल, सी.सी.टी.वी, कैटरिंग, वेट कैन्टीन, ट्रांसपोर्ट, आग बुजाने वाले यंत्र इत्यादि की सेवाएं अनुबंध पर प्रदान करने हेतु इच्छुक फर्म अपना पंजीकरण दिनांक 12.02.2021 तक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या डाक के माध्यम से करा सकते हैं। पंजीकरण फॉर्म विद्यालय की वेबसाइट <https://nagrota.kvs.ac.in/> से डाउनलोड कर सकते हैं।

प्राचार्य

REGISTRATION OF FIRMS/SUPPLIERS (2021-22)

Applications are invited for registration of firms/suppliers for the session 2021-22 for supply of Stationary items, Examinations related material, Printing of question paper & Vidyalaya Patrika, Teachers Diary, Students Diary, Prizes, Medals, Trophies, Mementoes, Sports Items, Musical Instruments, Computer Hardware & Peripherals/ AMC, Teaching Aids, Library Books, Furniture Items, Tents Items, Sound & Light System, Electrical Material, AC, Water Purifier, Water Coolers/AMC, Electrician, Plumber, Painting Materials, Labour, Photography, Drawing and Painting, Flex Printing, Security & Conservancy Agency, Laboratory Equipments, Plastic Chair & Stools, CCTV, Catering Service, Wet Canteen, Transport, Fire Extinguisher. Registration Form may be downloaded from Vidyalaya website <https://nagrota.kvs.ac.in/> and may be submitted on or before 12.02.2021 by hand or by post.

Principal

KENDRIYA VIDYALAYA NAGROTA

FORM FOR REGISTRATION OF FIRMS

FOR THE PERIOD OF ONE YEAR W.E.F. 01.04.2021 to 31.03.2022

Sub: - Registration of firms/agencies for supply/service _____

at Kendriya Vidyalaya Nagrota

1. Name & address of firm :- _____
2. Telephone number
a) Landlines - _____
b) Mobile - _____
3. Name of the owner of the firm with address :- _____
4. GST Registration. No(Attached Self-Attested copy)_____
5. PAN/TAN No (Attached Self-Attested copy):-_____
6. Date and validity of registration of firm:- _____
7. Enclose photocopy of Registration under EPF, ESI (if applicable)
8. Copies of return of GST (Last 03) :- _____
9. Details of experience & place of work during the last 03 years.

Institution where rendered service / supplied articles	Period	Name of supplies / service	If contract cancelled before expiry, mention region

10. Name & address for bank guarantee _____

Date: - _____

Signature of owner of the firm & seal

NOTE: Without GST number, no firm will be registered. The Vidyalaya reserves the right to cancel the name of the supplier/firm/service provider from its approved lists at its absolute discretion without assigning any reason.

Undertaking

I Mr./Ms. _____ Proprietor
of M/S _____

do hereby undertake that the above furnished information is correct to the best of my knowledge and belief. In case of any information / supporting document furnished by me found to be incorrect / false, the offer of my contract will be cancelled automatically and action may be taken as per KVS rule. I assure you to provide the best service to the Vidyalaya.

Place: _____

Signature _____

Date: _____

Name of Proprietor _____

Seal of the Firm _____